



MP-TET

शिक्षक पात्रता परीक्षा

MADHYA PRADESH PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD

उच्च प्राथमिक स्तर (विज्ञान वर्ग)

भाग – 3

गणित



INDEX

1. Number system (દશબ્દાંક પદ્ધતિ)	1
2. Decimal fraction (દશમલવ શિફન)	14
3. Indices and surds (ઘાતાંક એવં કરણી)	22
4. Polynomials (બહુપદ)	50
5. Algebraic identities (બીજગણિતીય તદ્વાત્મક)	60
6. Simple interest (સાધારણ બ્યાડ્ઝ)	77
7. Compound interest (ચક્રવૃદ્ધિ બ્યાડ્ઝ)	85
8. LCM and HCf (લદ્ધુતમ સમાપવર્તક એવં મહત્વમ સમાપવર્તક)	95
9. Statistics (સાંક્ષિકી)	105
10. Percentage (પ્રતિશતતા)	111
11. Ratio and Proportion (અનુપાત એવં અનુપાત)	126
12. Simplification (શરલીકરણ)	132
13. Time, distance and train (સમય, દૂરી એવં ટેલગાડી)	150
14. Time and work (સમય એવં કાર્ય)	161
15. Geometry (ઊચામિતીય)	172
16. Profit, loss and discount (લાભ-હાનિ વ બટ્ટા)	199
17. Mensuration (ક્ષેત્રમિતિ)	221
18. Probability (પ્રાયિકતા)	251
19. Equations (યગુપત, વર્ગ, રૈખિક, ચર અચર)	262
20. Boat and streams (ગાવ એવં ધારા)	272
21. Teaching methods or pedagogy (શિદ્યાપન વિધિ)	279

NUMBER SYSTEM

संख्या पद्धति

NUMBER SYSTEM

सम संख्याएँ (Even numbers) \Rightarrow जो प्राकृत संख्याएँ 2 से भूतिया विभक्त हों जाये उन्हें सम संख्याएँ कहते हैं।

अैसे- 32, 46, 54, 90, 90 आदि

विषम संख्याएँ (Odd numbers) \Rightarrow जो प्राकृत संख्याएँ 2 से भूतिया विभक्त न हों जाये तो उसे विषम संख्याएँ कहते हैं। अैसे- 23, 25, 27, 29, 31 आदि

अभाज्य संख्याएँ (Prime numbers) \Rightarrow ऐसी प्राकृत संख्याएँ जिसके दो तथा केवल दो गुणखण्ड हों, अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं।

अैसे- 100 से कम सभी अभाज्य संख्याएँ नीची दी गई हैं।
 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59,
 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 इनकी संख्या 25 है।

पूरी संख्याएँ \Rightarrow (Whole numbers)

0 से अनन्त तक संख्याओं को पूरी संख्या कहते हैं।

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$$

• सबसे होटी पूरी संख्या = शून्य है।

प्राकृतिक संख्याएँ \Rightarrow (Natural numbers)

$$\{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

जातीय मान (Local Value)

किसी दी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान है चाहे कह किसी भी स्थान पर क्यों न की जैसे - संख्या 63578 में 3 का जातीय मान 3 है। 6 का जातीय मान 6 है।

स्थानीय मान (Place Value)

किसी दी गई संख्या में -

इकाई अंक का स्थानीय मान = (इकाई अंक $\times 1$)

दशाई अंक का स्थानीय मान = (दशाई अंक $\times 10$)

शैकड़ी अंक का स्थानीय मान = (शैकड़ी का अंक $\times 100$) आदि

उदाहरण ⇒ संख्या 32567809 में निम्न अंकों का स्थानीय मान

होता किए?

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 0 ⑤ 0

बल → इनके तालिका में लिखने पर =

फ्रिड	दसलाख	लाख	दसवर्षी	वर्षा	शैकड़ी	दशाई	इकाई
3	2	5	6	7	8	0	9

$$3 \text{ का स्थानीय मान} = 3 \times 10000000 = 30000000$$

$$5 \text{ का स्थानीय मान} = 5 \times 100000 = 500000$$

$$7 \text{ का स्थानीय मान} = 7 \times 1000 = 7000$$

$$8 \text{ का स्थानीय मान} = 8 \times 100 = 800$$

$$0 \text{ का स्थानीय मान} = 0 \times 10 = 0$$

কুচ তিহার স্বত্ত্ব

$$\textcircled{i}. (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

$$\textcircled{ii}. (a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$$

$$\textcircled{iii}. (a+b)^2 + (a-b)^2 = 2(a^2 + b^2)$$

$$\textcircled{iv}. (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

$$\textcircled{v}. (a^2 + b^2) = (a+b)(a-b)$$

$$\textcircled{vi}. (a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$$

$$\textcircled{vii}. (a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$$

$$\textcircled{viii}. a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$\textcircled{ix}. a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$\textcircled{1} \quad 6704 \times 706 + 6704 \times 214 = ?$$

$$= 6704 \times (706 + 214)$$

$$= 6704 \times 1000 = \boxed{6704000}$$

$$\textcircled{2} \quad 8765 \times 974 - 8765 \times 874 = ?$$

$$= 8765 \times (974 - 874)$$

$$= 8765 \times 100 = \boxed{876500}$$

$$\textcircled{3} \quad 1509 \times 1509 = ?$$

$$(1509)^2 = (1500 + 9)^2$$

$$= (1500)^2 + (9)^2 + 2 \times 1500 \times 9 \quad [\because (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab]$$

$$= 2250000 + 81 + 27000$$

$$= \boxed{2277081}$$

$$\textcircled{4} \quad 1994 \times 1994 = ?$$

$$(2000 - 6)^2 =$$

$$= (2000)^2 + 6^2 - 2 \times 2000 \times 6 \quad [\because (a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab]$$

$$= 4000000 + 36 - 24000$$

$$= 4000000 + 36 - 2400 = 4000036 - 24000$$

$$= \boxed{3976036}$$

$$\textcircled{5} \quad 803 \times 803 - 117 \times 117 = ?$$

$$= (803)^2 - (117)^2 \quad [a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)]$$

$$= (803 + 117) (803 - 117)$$

$$= 1000 \times 766 = \boxed{766000}$$

$$\textcircled{6} \quad \frac{703 \times 703 \times 703 + 217 \times 217 \times 217}{703 \times 703 - 703 \times 217 + 217 \times 217} = ?$$

लक्ष - दिया गया वर्णन = $\frac{(703)^3 + (217)^3}{(703)^2 - 703 \times 217 + (217)^2}$

$$= \frac{(a^3 + b^3)}{(a^2 - ab + b^2)}, \quad \begin{array}{l} \text{जहाँ } a = 703 \\ \text{तथा } b = 217 \end{array}$$

$$= \frac{(a+b)(a^2 + b^2 - ab)}{(a^2 - ab + b^2)}$$

$$\Rightarrow (a+b) = (703 + 217) = \boxed{1000}$$

$$\textcircled{7} \quad \frac{693 \times 693 \times 693 - 303 \times 303 \times 303}{693 \times 693 + 693 \times 303 + 303 \times 303} = ?$$

लक्ष - दिया गया वर्णन = $\frac{(693)^3 - (303)^3}{(693)^2 + (303)^2 + (693 \times 303)}$

$$= \frac{a^3 - b^3}{a^2 + b^2 + ab}$$

$$= \frac{(a-b)(a^2 + b^2 + ab)}{(a^2 + b^2 + ab)}$$

$$= (a-b)$$

$$= 693 - 303$$

$$= \boxed{390}$$

⑧ $(476 \times 199 \times 359 \times 242)$ में इकाई का अंग पर्या क्या होगा?

लिखी दी गई संख्याओं के इकाई अंकों का गुणनफल =
 $(6 \times 8 \times 9 \times 2) = 864$

[अतः अभीष्ट अंक = 4]

⑨. $(3527)^{654}$ में इकाई अंक पर्या क्या होगा।?

लिखी → अभीष्ट अंक $(7)^{654}$ में इकाई अंक

$$= [(7^4)^{163} \times 7^2] \text{ में इकाई अंक}$$

$$= [1 \times 49] \text{ में इकाई अंक} = 49 = 9$$

. ∴ $(3527)^{654}$ में इकाई अंक = 9.]

⑩ $(765 \times 641 \times 57)$ में इकाई अंक कौन?

$$765 \text{ का इकाई अंक} = (7^4)^{16} \times 7 \text{ का इकाई अंक} (1 \times 7) = 7$$

$$641 \text{ का इकाई अंक} = 6$$

$$57 \text{ का इकाई अंक} = (3^4)^{14} \times 3 \text{ का इकाई अंक} = (1 \times 3) = 3$$

$$\text{अभीष्ट अंक} = (7 \times 6 \times 3) \text{ का इकाई अंक} = 126 \text{ का इकाई अंक} = 6$$

$$\begin{aligned}
 ① \quad & \left(1\frac{1}{2} + 11\frac{1}{2} + 111\frac{1}{2} + 1111\frac{1}{2} \right) = ? \\
 & = \left(1 + \frac{1}{2} + 11 + \frac{1}{2} + 111 + \frac{1}{2} + 1111 + \frac{1}{2} \right) \\
 & = \left(1 + 11 + 111 + 1111 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \\
 & = (1234 + 1 + 1) \\
 & = \boxed{1236} \text{ any}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ② \quad & \left[\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{99 \times 100} \right] = ? \\
 & \left[1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100} \right] \\
 & \left[1 - \frac{1}{100} \right] \\
 & \text{ans } \left[\frac{99}{100} \right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ③ \quad & \left(1 - \frac{1}{2^2} \right) \left(1 - \frac{1}{3^2} \right) \left(1 - \frac{1}{4^2} \right) \dots \left(1 - \frac{1}{19^2} \right) \left(1 - \frac{1}{20^2} \right) = ? \\
 & \left(1 - \frac{1}{2} \right) \left(1 + \frac{1}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{3} \right) \left(1 + \frac{1}{3} \right) \left(1 - \frac{1}{4} \right) \left(1 + \frac{1}{4} \right) \dots \left(1 - \frac{1}{19} \right) \left(1 + \frac{1}{19} \right) \left(1 - \frac{1}{20} \right) \left(1 + \frac{1}{20} \right) \\
 & \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{4} \times \dots \times \frac{18}{19} \times \frac{20}{19} \times \frac{19}{20} \times \frac{21}{20} \\
 & = \frac{1}{2} \times \frac{21}{20} \\
 & = \frac{21}{40} = \boxed{0.525}
 \end{aligned}$$

संख्या ५३६४८७ में निम्न अंकों के जातीय मान लिखें?

- (i) ५ (ii) ४ (iii) ०.

$$5 \text{ जा जातीय मान} = 5$$

$$4 \text{ का जातीय मान} = 4$$

$$0 \text{ का जातीय मान} = 0$$

विभाजित के नियम

~~संख्याओं~~ में भाग संक्रिया (Division on numbers)

माना किसी संख्या a जो संख्या b से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r है तब —

a = भाज्य (dividend)

b = भाजक (divisor)

q = भागफल (quotient)

r = शेषफल (remainder)

$$b) \overline{\underline{a}} (q$$

$$\boxed{\text{भाज्य} = (\text{भाजक} \times \text{भागफल}) + \text{शेषफल}}$$

विभक्त तीनि के नियम →

2 से - यदि किसी सं० का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो ,तो वह सं० 2 से पूर्णिया विभक्त होगी

3 से - यदि दी गई सं० के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णिया विभक्त हो जाए

5 से - यदि दी गई सं० के अन्तिम दो अंक 5 से पूर्णिया विभक्त हो।

5 से - यदि दी गई सं० के इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो।

6 से - यदि दी गई सं० 2 और 3 दोनों से पूर्णिया विभक्त हो।

7 से - यदि इकाई अंक जो होडकर शेष बची सं० में से इकाई जो दुगुना धूल देने पर बची सं० 7 से विभक्त हो जाए। अंक सं० 7 से विभक्त होगी।

8 से - यदि दी गई सं० के अन्तिम तीन अंक 8 से पूर्णिया विभक्त हो।

9 से - यदि दी गई सं० के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णिया विभक्त हो।

10 से - यदि दी गई सं० का अन्तिम अंक शून्य हो।

11 से - जोई भी सं० 11 से विभाजित होगी यदि उसके सम

स्थान के अंकों का योग का अन्तर या तो 0 हो था ॥ से विभाजित हो।

① 1043 की किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11
तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। भाजक क्या जीविते?

$$\text{दल} \Rightarrow \text{यहाँ भाज्य} = 1043$$

$$\text{भागफल} = 11$$

$$\text{शेषफल} = 20$$

$$\text{भाजक} = \frac{(\text{भाज्य}) - (\text{शेषफल})}{\text{भागफल}} = \frac{1043 - 20}{11} = \frac{1023}{11} = \boxed{93}$$

② 1000 में होरी से होरी संख्या जॉन-सी छाइ जाये कि
शेष लव्ही संख्या 19 से पूछिया विभक्त हो जाये?

दल. 1000 से 19 से भाग देने पर शेषफल = 12

$$19) \overline{1000} (52 \quad \boxed{\text{अपील्यु लेख्या} = 12}$$

$$\begin{array}{r} 95 \\ \hline 50 \\ 30 \\ \hline 12 \end{array}$$

③ किसी संठ की 195 से भाग देने पर 47 शेषफल
हो इस संठ को 15 से भाग देने पर
शेष क्या होगा?

दल- माना कि गई संख्या को भाग देने पर भागफल = 9
तथा शेषफल = 47

$$\begin{aligned} \text{तब दी गई संख्या} &= 195 \times 9 + 47 \\ &= 15 \times (139) + 15 \times 3 + 2 \\ &= 15 \times (139+3) + 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{अतः इस संठ को } 15 \text{ से भाग देने पर} \quad \text{शेषफल} = 2}$$

Exercise

$$\textcircled{1} \quad 25 \times 3.25 + 50.4 \div 24 = ?$$

Ans = 83.35

$$\textcircled{2} \quad 7690 + 2956 - 5050 + 4020 = ?$$

Ans = 6094

$$\textcircled{3} \quad 16 \times 12 - 672 \div 21 = x - 211$$

Ans = 371

$$\textcircled{4} \quad 32.5 \times 450 \text{ AT } 260.0 \div 3 - 745.5 = ?$$

Ans = 522

$$\textcircled{5} \quad (106 \times 106 - 94 \times 94) = ?$$

Ans = 2400

$$\textcircled{6} \quad (207 \times 207 + 269 \times 269 - 2 \times 207 \times 269) = ?$$

Ans = 3241

$$\textcircled{7} \quad (456 \times 456 + 144 \times 144 + 2 \times 456 \times 144) = ?$$

Ans = 360000

$$\textcircled{8} \quad \frac{(509+107)^2 - (507-107)^2}{509 \times 107} = ?$$

Ans = 4

$$\textcircled{9} \quad \frac{(931+130)^2 + (931-130)^2}{(931 \times 931) + (130 \times 130)} = ?$$

Ans = 2

$$\textcircled{10} \quad \frac{(735 \times 735 \times 735 - 105 \times 105 \times 105)}{(735 \times 735 + 735 \times 105 + 105 \times 105)} = ?$$

Ans = 1100

Q. ⑩ $(2137)^{753}$ का इकाईं संकं क्या होगा ?

ans = 7

Q. ⑪ $(22)^{23}$ का इकाईं संकं क्या होगा ?

ans = 8

Q. ⑫ $(3694)^{1793} \times (615)^{317} \times (844)^{491}$ में इकाईं संकं क्या होगा ?

ans = 0

Q. ⑬ 867943 में 7 के स्थानीय मान तथा वातीय मान में अन्तर =

ans = 6993

Q. ⑭ 689235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अन्तर कितना है ?

ans = 0970

Q. ⑮ सबसे छोटी अभाज्य संख्या जोन सी है ?

ans = 2

Q. ⑯ 70 से छोटी अभाज्य संख्याएँ कितनी हैं ?

ans = 18

Sol = .

दशमलव मिन्ने

Decimal Fraction

दशमलव भिन्ने

प्रश्नात्मक भिन्ने = ऐसी लिनका हर 10 की घात में हो, दशमलव भिन्न के स्थानी वृ घट लिखते हैं।

$$\frac{1}{10} = 0.1 \quad \frac{2}{10} = 0.2 \quad \frac{3}{10} = 0.3 \quad \frac{4}{10} = 0.4 \quad \dots \quad \frac{9}{10} = 0.9$$

$$\frac{1}{100} = 0.01 \quad \frac{2}{100} = 0.02 \quad \frac{3}{100} = 0.03 \quad \frac{4}{100} = 0.04 \quad \dots \quad \frac{9}{100} = 0.09$$

$$\frac{11}{100} = 0.11 \quad \frac{12}{100} = 0.12 \quad \frac{13}{100} = 0.13 \quad \frac{14}{100} = 0.14 \quad \dots \quad \frac{99}{100} = 0.99$$

$$\frac{1}{1000} = 0.001 \quad \frac{2}{1000} = 0.002 \quad \frac{3}{1000} = 0.003 \quad , \quad \frac{11}{1000} = 0.011, \frac{12}{1000} = 0.012$$

$$\frac{99}{1000} = 0.099 \quad \frac{100}{1000} = \frac{1}{10} = 0.1 \quad \frac{101}{1000} = 0.101 \quad \frac{102}{1000} = 0.102$$

$$\frac{999}{1000} = 0.999$$

नियम - यह दशमलव भिन्न की अंक में बिना दशमलव बिन्दु के लिखे तथा कर में दशमलव बिन्दु के नीचे 1 के साथ उल्ली शून्य लगाये जितने दशमलव बिन्दु के बाद के अंक हैं।